



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020
पौष 10, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/1056-2020-4-134(चित्रकूट)-2014
लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-564

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राज कुमार, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 62/2961-33-3-2020-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद चित्रकूट की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/82-2015-4-134(चित्रकूट)-2014, दिनांक 13 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड चित्रकूटधामकर्वी एवं मऊ की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

सारणी

जनपद का नाम—चित्रकूट

क्र० सं०	पूर्व की स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	चित्रकूटधामकर्वी	लौढियाखुर्द	लौढियाखुर्द लौढियाबुजुर्ग	1	चित्रकूटधामकर्वी	लौढियाखुर्द	लौढियाखुर्द लौढियाबुजुर्ग
2	चित्रकूटधामकर्वी	रगौली	रगौली	2	चित्रकूटधामकर्वी	रगौली	रगौली
3	चित्रकूटधामकर्वी	कंठीपुर	कंठीपुर कोटा कोदूपुर कंचनपुर लक्ष्मनपुर अमरपुर	3	चित्रकूटधामकर्वी	कंठीपुर	कंठीपुर कोटा कोदूपुर कंचनपुर लक्ष्मनपुर अमरपुर
4	चित्रकूटधामकर्वी	सपहा	सपहा	4	चित्रकूटधामकर्वी	सपहा	सपहा
5	चित्रकूटधामकर्वी	इटरौर भीखमपुर	इटरौर भीखमपुर बनवारीपुर	5	चित्रकूटधामकर्वी	इटरौर भीखमपुर	इटरौर भीखमपुर बनवारीपुर
6	चित्रकूटधामकर्वी	कसहाई	कसहाई	6	चित्रकूटधामकर्वी	कसहाई	कसहाई
7	चित्रकूटधामकर्वी	भरकोर्वा	भरकोर्वा	7	चित्रकूटधामकर्वी	भरकोर्वा	भरकोर्वा
8	चित्रकूटधामकर्वी	ताम्रबनी	ताम्रबनी शीतलपुर कोनहस	8	चित्रकूटधामकर्वी	ताम्रबनी	ताम्रबनी शीतलपुर कोनहस
9	चित्रकूटधामकर्वी	दुबारी	दुबारी गौरीमाफी ऐरानमाफी	9	चित्रकूटधामकर्वी	दुबारी	दुबारी गौरीमाफी ऐरानमाफी
10	चित्रकूटधामकर्वी	बरवारा	बरवारा	10	चित्रकूटधामकर्वी	बरवारा	बरवारा
11	चित्रकूटधामकर्वी	छिपनी बाहरखेड़ा	छिपनी बाहरखेड़ा बन्धुइन	11	चित्रकूटधामकर्वी	छिपनी बाहरखेड़ा	छिपनी बाहरखेड़ा बन्धुइन
12	चित्रकूटधामकर्वी	बनकट	बनकट	12	चित्रकूटधामकर्वी	बनकट	बनकट
13	चित्रकूटधामकर्वी	लोढ़वारा	लोढ़वारा	13	चित्रकूटधामकर्वी	लोढ़वारा	लोढ़वारा
14	चित्रकूटधामकर्वी	भीटाखेड़ा काड़ीखेड़ा	भीटाखेड़ा काड़ीखेड़ा	14	चित्रकूटधामकर्वी	भीटाखेड़ा काड़ीखेड़ा	भीटाखेड़ा काड़ीखेड़ा
15	चित्रकूटधामकर्वी	कर्वीमाफी	कर्वीमाफी	15	चित्रकूटधामकर्वी	कर्वीमाफी	कर्वीमाफी
16	चित्रकूटधामकर्वी	कहेटामाफी	कहेटामाफी	16	चित्रकूटधामकर्वी	कहेटामाफी	कहेटामाफी
17	चित्रकूटधामकर्वी	सकरौली	सकरौली खैरी डिगरी	17	चित्रकूटधामकर्वी	सकरौली	सकरौली खैरी डिगरी
18	चित्रकूटधामकर्वी	परसौंजा	परसौंजा	18	चित्रकूटधामकर्वी	परसौंजा	परसौंजा

1	2	3	4	1	2	3	4
19	चित्रकूटधामकर्वी	चिल्लामाफी	चिल्लामाफी	19	चित्रकूटधामकर्वी	चिल्लामाफी	चिल्लामाफी
20	चित्रकूटधामकर्वी	कौहारी	कौहारी	20	चित्रकूटधामकर्वी	कौहारी	कौहारी
			पटियाजप्ती				पटियाजप्ती
21	चित्रकूटधामकर्वी	साईपुर	साईपुर	21	चित्रकूटधामकर्वी	साईपुर	साईपुर
			दौलतपुर				दौलतपुर
			गडरहा				गडरहा
22	चित्रकूटधामकर्वी	रमयापुर	रमयापुर	22	चित्रकूटधामकर्वी	रमयापुर	रमयापुर
23	चित्रकूटधामकर्वी	गढ़ीघाट	गढ़ीघाट	23	चित्रकूटधामकर्वी	गढ़ीघाट	गढ़ीघाट
			डोमनखेरा				डोमनखेरा
24	चित्रकूटधामकर्वी	भंभौर	भंभौर	24	चित्रकूटधामकर्वी	भंभौर	भंभौर
			महुटारूपौली				महुटारूपौली
25	चित्रकूटधामकर्वी	मकरी पहरा	मकरी पहरा	25	चित्रकूटधामकर्वी	मकरी पहरा	मकरी पहरा
			मकरी पाल देव				मकरी पाल देव
26	चित्रकूटधामकर्वी	कादरगंज	कादरगंज	26	चित्रकूटधामकर्वी	कादरगंज	कादरगंज
27	चित्रकूटधामकर्वी	बारामाफी	बारामाफी	27	चित्रकूटधामकर्वी	बारामाफी	बारामाफी
28	चित्रकूटधामकर्वी	इटखरी	इटखरी	28	चित्रकूटधामकर्वी	इटखरी	इटखरी
29	चित्रकूटधामकर्वी	दहिनी	दहिनी	29	चित्रकूटधामकर्वी	दहिनी	दहिनी
30	चित्रकूटधामकर्वी	पहड़िया बुजुर्ग सानी	पहड़िया बुजुर्ग सानी	30	चित्रकूटधामकर्वी	पहड़िया बुजुर्ग सानी	पहड़िया बुजुर्ग सानी
31	चित्रकूटधामकर्वी	हिनौतामाफी	हिनौतामाफी	31	चित्रकूटधामकर्वी	हिनौतामाफी	हिनौतामाफी
32	चित्रकूटधामकर्वी	तराव	तराव	32	चित्रकूटधामकर्वी	तराव	तराव
33	चित्रकूटधामकर्वी	रैपुरवामाफी	रैपुरवामाफी	33	चित्रकूटधामकर्वी	रैपुरवामाफी	रैपुरवामाफी
34	चित्रकूटधामकर्वी	पडरी	पडरी	34	चित्रकूटधामकर्वी	पडरी	पडरी
35	चित्रकूटधामकर्वी	कल्ला	कल्ला	35	चित्रकूटधामकर्वी	कल्ला	कल्ला
			चकला गुरुबाबा				चकला गुरुबाबा
36	चित्रकूटधामकर्वी	शिवरामपुर	शिवरामपुर	36	चित्रकूटधामकर्वी	शिवरामपुर	शिवरामपुर
37	चित्रकूटधामकर्वी	मछरिहा	मछरिहा	37	चित्रकूटधामकर्वी	मछरिहा	मछरिहा
			भांगा				भांगा
38	चित्रकूटधामकर्वी	पथरौड़ी	पथरौड़ी	38	चित्रकूटधामकर्वी	पथरौड़ी	पथरौड़ी
39	चित्रकूटधामकर्वी	भैंसौधा	भैंसौधा	39	चित्रकूटधामकर्वी	भैंसौधा	भैंसौधा
40	चित्रकूटधामकर्वी	बगलई	बगलई	40	चित्रकूटधामकर्वी	बगलई	बगलई
			बीरामाफी				बीरामाफी
			बीरा निक्स				बीरा निक्स
41	चित्रकूटधामकर्वी	पहरा	पहरा	41	चित्रकूटधामकर्वी	पहरा	पहरा
			भीखमपुर				भीखमपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
42	चित्रकूटधामकर्वी	भारतपुर	भारतपुर भैंसौधा	42	चित्रकूटधामकर्वी	भारतपुर	भारतपुर भैंसौधा
			भारतपुर पहरा				भारतपुर पहरा
			भारतपुर तराव				भारतपुर तराव
			रामपुरमाफी				रामपुरमाफी
43	चित्रकूटधामकर्वी	दुगवा	दुगवा	43	चित्रकूटधामकर्वी	दुगवा	दुगवा
			खरैहा				खरैहा
44	चित्रकूटधामकर्वी	मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	44	चित्रकूटधामकर्वी	मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर
			रामपुर पालदेव				रामपुर पालदेव
45	चित्रकूटधामकर्वी	हरिहरपुर	हरिहरपुर	45	चित्रकूटधामकर्वी	हरिहरपुर	हरिहरपुर
			शिवराजपुर पहाड़				शिवराजपुर पहाड़
			मवई पहरा				मवई पहरा
			मवई तरावं				मवई तरावं
			शिवराजपुर माफी				शिवराजपुर माफी
46	चित्रकूटधामकर्वी	भरथौल	भरथौल	46	चित्रकूटधामकर्वी	भरथौल	भरथौल
47	चित्रकूटधामकर्वी	बैहार	बैहार	47	चित्रकूटधामकर्वी	बैहार	बैहार
48	चित्रकूटधामकर्वी	बिहारा	बिहारा	48	चित्रकूटधामकर्वी	बिहारा	बिहारा
			अमीनपुर छिवलहा				अमीनपुर छिवलहा
49	चित्रकूटधामकर्वी	घुरेटनपुर	घुरेटनपुर	49	चित्रकूटधामकर्वी	घुरेटनपुर	घुरेटनपुर
50	चित्रकूटधामकर्वी	मानपुर	मानपुर	50	चित्रकूटधामकर्वी	मानपुर	मानपुर
51	चित्रकूटधामकर्वी	खम्हरिया	खम्हरिया	51	चित्रकूटधामकर्वी	खम्हरिया	खम्हरिया
			कोल्हुवा माफी				कोल्हुवा माफी
52	चित्रकूटधामकर्वी	बन्दरी	बन्दरी	52	चित्रकूटधामकर्वी	बन्दरी	बन्दरी
			सिलखोरी				सिलखोरी
			लोखरिया				लोखरिया
			ढोलबजा				ढोलबजा
53	चित्रकूटधामकर्वी	बराछ	बराछ	53	चित्रकूटधामकर्वी	बराछ	बराछ
			सभापुर				सभापुर
			पीतुपुर				पीतुपुर
54	चित्रकूटधामकर्वी	मैनहाई माफी	मैनहाई माफी	54	चित्रकूटधामकर्वी	मैनहाई माफी	मैनहाई माफी
55	चित्रकूटधामकर्वी	छपरामाफी	छपरामाफी	55	चित्रकूटधामकर्वी	छपरामाफी	छपरामाफी
56	चित्रकूटधामकर्वी	सेमरिया जगन्नाथवासी	सेमरिया जगन्नाथवासी	56	चित्रकूटधामकर्वी	सेमरिया जगन्नाथवासी	सेमरिया जगन्नाथवासी
			चकमोगरी				चकमोगरी
			चकला चकमोगरी				चकला चकमोगरी
			बाबुपुर चकला				बाबुपुर चकला

1	2	3	4	1	2	3	4
57	चित्रकूटधामकर्वी	भगनपुर	भगनपुर	57	चित्रकूटधामकर्वी	भगनपुर	भगनपुर
			ठर्री तराव				ठर्री तराव
58	चित्रकूटधामकर्वी	बालापुर माफी	बालापुर माफी	58	चित्रकूटधामकर्वी	बालापुर माफी	बालापुर माफी
			बन्दरकोल				बन्दरकोल
			चकभूपत				चकभूपत
			चकलोहासर				चकलोहासर
							खोही
59	चित्रकूटधामकर्वी	खोही	खोही		चित्रकूटधामकर्वी	नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 1877/नौ-6-2020-8 सी0वि0/2019 दिनांक 18.12.2020 के क्रम में राजस्व ग्राम खोही को क्रमांक 58 पर अंकित निकटस्थ ग्राम पंचायत बालापुरमाफी में सम्मिलित किया गया।	
60	चित्रकूटधामकर्वी	संग्रामपुर	संग्रामपुर	59	चित्रकूटधामकर्वी	संग्रामपुर	संग्रामपुर
			हरसौली				हरसौली
							चितरागोकुलपुर
61	चित्रकूटधामकर्वी	रानीपुर खाकी	रानीपुर खाकी	60	चित्रकूटधामकर्वी	रानीपुर खाकी	रानीपुर खाकी
			बरमपुर				बरमपुर
62	चित्रकूटधामकर्वी	चितरा गोकुलपुर	चितरा गोकुलपुर		चित्रकूटधामकर्वी	नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 1877/नौ-6-2020-8 सी0वि0/2019 दिनांक 18.12.2020 के क्रम में राजस्व ग्राम चितरागोकुलपुर को क्रमांक 59 पर अंकित निकटस्थ ग्राम पंचायत संग्रामपुर में सम्मिलित किया गया।	
63	चित्रकूटधामकर्वी	सीतापुर ग्रामीण	सीतापुर ग्रामीण	61	चित्रकूटधामकर्वी	सीतापुर ग्रामीण	सीतापुर ग्रामीण
			चकला सीतापुर				चकला सीतापुर
			किला बाग				किला बाग
64	चित्रकूटधामकर्वी	सिद्धपुर	सिद्धपुर	62	चित्रकूटधामकर्वी	सिद्धपुर	सिद्धपुर
65	चित्रकूटधामकर्वी	बनाड़ी	बनाड़ी	63	चित्रकूटधामकर्वी	बनाड़ी	बनाड़ी
			गढ़िवा				गढ़िवा
66	चित्रकूटधामकर्वी	कोल गदहिया	कोल गदहिया	64	चित्रकूटधामकर्वी	कोल गदहिया	कोल गदहिया
			मरजादपुर				मरजादपुर
67	चित्रकूटधामकर्वी	पाही	पाही	65	चित्रकूटधामकर्वी	पाही	पाही
68	चित्रकूटधामकर्वी	खोह	खोह	66	चित्रकूटधामकर्वी	खोह	खोह
69	चित्रकूटधामकर्वी	शीतलपुर तरौंहा	शीतलपुर तरौंहा	67	चित्रकूटधामकर्वी	शीतलपुर तरौंहा	शीतलपुर तरौंहा
70	चित्रकूटधामकर्वी	सेमरिया चरमदासी	सेमरिया चरमदासी	68	चित्रकूटधामकर्वी	सेमरिया चरमदासी	सेमरिया चरमदासी

1	2	3	4	1	2	3	4
71	चित्रकूटधामकर्वी	रेहुटिया	रेहुटिया	69	चित्रकूटधामकर्वी	रेहुटिया	रेहुटिया
72	चित्रकूटधामकर्वी	खजुरिहा	खजुरिहा	70	चित्रकूटधामकर्वी	खजुरिहा	खजुरिहा
			सभापुर तराव				सभापुर तराव
73	चित्रकूटधामकर्वी	रेहुटा	रेहुटा	71	चित्रकूटधामकर्वी	रेहुटा	रेहुटा
74	चित्रकूटधामकर्वी	पुरवा तरौंहा	पुरवा तरौंहा	72	चित्रकूटधामकर्वी	पुरवा तरौंहा	पुरवा तरौंहा
			गोपालपुर				गोपालपुर
75	चित्रकूटधामकर्वी	भंभई	भंभई	73	चित्रकूटधामकर्वी	भंभई	भंभई
76	चित्रकूटधामकर्वी	चन्द्रगहना	चन्द्रगहना	74	चित्रकूटधामकर्वी	चन्द्रगहना	चन्द्रगहना
			नरायनपुर				नरायनपुर
77	चित्रकूटधामकर्वी	खुटहा	खुटहा	75	चित्रकूटधामकर्वी	खुटहा	खुटहा
78	चित्रकूटधामकर्वी	रानीपुर भट्ट	रानीपुर भट्ट	76	चित्रकूटधामकर्वी	रानीपुर भट्ट	रानीपुर भट्ट
							अहमदगंज
							चकलाराजरानी
79	चित्रकूटधामकर्वी	अहमदगंज	अहमद गंज		चित्रकूटधामकर्वी	नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 1877/नौ-6-2020-8 सी0वि0/2019 दिनांक 18.12.2020 के क्रम में राजस्व ग्राम अहमदगंज एवं चकलाराज रानी को क्रमांक 76 पर अंकित निकटस्थ ग्राम पंचायत रानीपुर भट्ट में सम्मिलित किया गया।	
			चकलाराज रानी				
80	चित्रकूटधामकर्वी	अमानपुर	अमानपुर	77	चित्रकूटधामकर्वी	अमानपुर	अमानपुर
			चकमाली				चकमाली
81	चित्रकूटधामकर्वी	कपसेठी	कपसेठी	78	चित्रकूटधामकर्वी	कपसेठी	कपसेठी
			गोबरिया				गोबरिया
82	चित्रकूटधामकर्वी	डिलौरा	डिलौरा	79	चित्रकूटधामकर्वी	डिलौरा	डिलौरा
			तरौंहा ग्रामीण			नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 1877/नौ-6-2020-8 सी0वि0/2019 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा ग्राम तरौंहा ग्रामीण नगरपालिका परिषद चित्रकूट में समाहित	
			कटरा गुदर				कटरा गुदर
			बरकोल				बरकोल
83	चित्रकूटधामकर्वी	रौली कल्यानपुर	रौली कल्यानपुर	80	चित्रकूटधामकर्वी	रौली कल्यानपुर	रौली कल्यानपुर
			चकरौली				चकरौली
			हीरापुर				हीरापुर
84	चित्रकूटधामकर्वी	गोडा	गोडा	81	चित्रकूटधामकर्वी	गोडा	गोडा

1	2	3	4	1	2	3	4
85	चित्रकूटधामकर्वी	पतौड़ा	पतौड़ा	82	चित्रकूटधामकर्वी	पतौड़ा	पतौड़ा
			लूक				लूक
86	चित्रकूटधामकर्वी	अमिलिहा	अमिलिहा	83	चित्रकूटधामकर्वी	अमिलिहा	अमिलिहा
87	चित्रकूटधामकर्वी	सुदिनपुर	सुदिनपुर	84	चित्रकूटधामकर्वी	सुदिनपुर	सुदिनपुर
88	चित्रकूटधामकर्वी	अकबरपुर (ब)	अकबरपुर (ब)	85	चित्रकूटधामकर्वी	अकबरपुर (ब)	अकबरपुर (ब)
89	चित्रकूटधामकर्वी	रसिन	रसिन	86	चित्रकूटधामकर्वी	रसिन	रसिन
90	चित्रकूटधामकर्वी	भगवतपुर	भगवतपुर	87	चित्रकूटधामकर्वी	भगवतपुर	भगवतपुर
			कोलौहा				कोलौहा
			भवानीपुर				भवानीपुर
			हुड़ा				हुड़ा
			किला मड़फा				किला मड़फा
91	चित्रकूटधामकर्वी	मऊ (ब)	मऊ (ब)	88	चित्रकूटधामकर्वी	मऊ (ब)	मऊ (ब)
92	चित्रकूटधामकर्वी	टिटिहरा	टिटिहरा	89	चित्रकूटधामकर्वी	टिटिहरा	टिटिहरा
93	चित्रकूटधामकर्वी	गोबरिया बुजुर्ग	गोबरिया बुजुर्ग	90	चित्रकूटधामकर्वी	गोबरिया बुजुर्ग	गोबरिया बुजुर्ग
94	चित्रकूटधामकर्वी	करारी	करारी	91	चित्रकूटधामकर्वी	करारी	करारी
			काजीपुर				काजीपुर
95	चित्रकूटधामकर्वी	धौरही माफी	धौरही माफी	92	चित्रकूटधामकर्वी	धौरही माफी	धौरही माफी
			ल्योझा				ल्योझा
			चकभटौरा				चकभटौरा
			भटौरा				भटौरा
96	मऊ	मऊ	मऊ मुस्तकिल		मऊ	नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2524/9-1-20-36 टी.ए./18 दिनांक 20.12.2020 के द्वारा राजस्व ग्राम मऊ मुस्तकिल एवं रतौरा, नगर पंचायत मऊ जनपद चित्रकूट में समाहित।	
			रतौरा			राजस्व ग्राम मऊ अहतमाली क्रमांक 98 पर अंकित निकटस्थ ग्राम पंचायत सेसासुबकरा में सम्मिलित किया गया।	
			मऊ अहतमाली				
97	मऊ	मवई कला	मवई कला मुस्तकिल	93	मऊ	मवई कला	मवई कला मुस्तकिल
			मवई कला अहतमाली				मवई कला अहतमाली
98	मऊ	मण्डौर	मण्डौर	94	मऊ	मण्डौर	मण्डौर
			बम्बुरा				बम्बुरा
			धन्धौरा				धन्धौरा
99	मऊ	बरवार	बरवार मुस्तकिल	95	मऊ	बरवार	बरवार मुस्तकिल
			बरवार अहतमाली				बरवार अहतमाली

1	2	3	4	1	2	3	4
100	मऊ	अहरी	अहरी	96	मऊ	अहरी	अहरी
101	मऊ	सुरौधा	सुरौधा	97	मऊ	सुरौधा	सुरौधा
102	मऊ	सेसासुबकरा	सेसासुबकरा मुस्तकिल	98	मऊ	सेसासुबकरा	सेसासुबकरा मुस्तकिल
			पटौरी				पटौरी
			सेसासुबकरा अहतमाली				सेसासुबकरा अहतमाली
							मऊ अहतमाली
103	मऊ	पूरब पताई	पूरब पताई मुस्तकिल	99	मऊ	पूरब पताई	पूरब पताई मुस्तकिल
			पूरब पताई अहतमाली				पूरब पताई अहतमाली
104	मऊ	परदवा	परदवा मुस्तकिल	100	मऊ	परदवा	परदवा मुस्तकिल
			बेनीपुर पाली मुस्तकिल				बेनीपुर पाली मुस्तकिल
			बेनीपुर पाली अहतमाली				बेनीपुर पाली अहतमाली
			परदवा अहतमाली				परदवा अहतमाली
105	मऊ	बरहा कोटरा	बरहा कोटरा मुस्तकिल	101	मऊ	बरहा कोटरा	बरहा कोटरा मुस्तकिल
			बरियरी खुर्द मुस्तकिल				बरियरी खुर्द मुस्तकिल
			बरहा कोटरा अहतमाली				बरहा कोटरा अहतमाली
106	मऊ	गढ़वा	गढ़वा	102	मऊ	गढ़वा	गढ़वा
107	मऊ	बरियारीकला	बरियारीकला मुस्तकिल	103	मऊ	बरियारीकला	बरियारीकला मुस्तकिल
			बरियारीकला अहतमाली				बरियारीकला अहतमाली
			बरियारी खुर्द अहतमाली				बरियारी खुर्द अहतमाली
108	मऊ	कोटारा खाम्भा	कोटारा खाम्भा	104	मऊ	कोटारा खाम्भा	कोटारा खाम्भा
109	मऊ	टिकरा	टिकरा	105	मऊ	टिकरा	टिकरा
			पश्चिम पताई मुस्तकिल				पश्चिम पताई मुस्तकिल
			पश्चिम पताई अहतमाली				पश्चिम पताई अहतमाली
110	मऊ	मनकुवार	मनकुवार मुस्तकिल	106	मऊ	मनकुवार	मनकुवार मुस्तकिल
			मनकुवार अहतमाली				मनकुवार अहतमाली

1	2	3	4	1	2	3	4
111	मऊ	खण्डिहा	खण्डिहा	107	मऊ	खण्डिहा	खण्डिहा
			मनौधा सानी				मनौधा सानी
112	मऊ	औझर	औझर	108	मऊ	औझर	औझर
113	मऊ	नींबी	नींबी	109	मऊ	नींबी	नींबी
114	मऊ	बम्बुरी	बम्बुरी	110	मऊ	बम्बुरी	बम्बुरी
115	मऊ	भिटारी	भिटारी	111	मऊ	भिटारी	भिटारी
116	मऊ	छिवलहा	छिवलहा	112	मऊ	छिवलहा	छिवलहा
			टेकना				टेकना
117	मऊ	तिलौली	तिलौली मुस्तकिल	113	मऊ	तिलौली	तिलौली मुस्तकिल
			तिलौली अहतमाली				तिलौली अहतमाली
118	मऊ	खण्डेहा	खण्डेहा	114	मऊ	खण्डेहा	खण्डेहा
			जफरपुर				जफरपुर
119	मऊ	देवरा	देवरा	115	मऊ	देवरा	देवरा
			नेवरा				नेवरा
			खन्दोखर				खन्दोखर
			खम्हरिया				खम्हरिया
			भवानीपुर				भवानीपुर
120	मऊ	तेन्दुवा माफी	तेन्दुवा माफी	116	मऊ	तेन्दुवा माफी	तेन्दुवा माफी
			मवई खुर्द				मवई खुर्द
			चक मवई राधा				चक मवई राधा
121	मऊ	करही	करही	117	मऊ	करही	करही
			जोरवारा				जोरवारा
122	मऊ	इटहा देवीपुर	इटहा देवीपुर	118	मऊ	इटहा देवीपुर	इटहा देवीपुर
			खन्दौरा माफी				खन्दौरा माफी
123	मऊ	ददरी	ददरी	119	मऊ	ददरी	ददरी
			पुरा				पुरा
124	मऊ	हटवा	हटवा	120	मऊ	हटवा	हटवा
125	मऊ	चित्रवार	चित्रवार	121	मऊ	चित्रवार	चित्रवार
			ठेंगर				ठेंगर
126	मऊ	मोहनी	मोहनी	122	मऊ	मोहनी	मोहनी
			बिहटा				बिहटा
			ततवार				ततवार

1	2	3	4	1	2	3	4
127	मऊ	बियावल	बियावल मुस्तकिल	123	मऊ	बियावल	बियावल मुस्तकिल
			बियावल अहतमाली				बियावल अहतमाली
128	मऊ	सिकरौ	सिकरौ	124	मऊ	सिकरौ	सिकरौ
129	मऊ	सखौँहा	सखौँहा	125	मऊ	सखौँहा	सखौँहा
			दुबारी				दुबारी
130	मऊ	चकौर	चकौर मुस्तकिल	126	मऊ	चकौर	चकौर मुस्तकिल
			चकौर अहतमाली				चकौर अहतमाली
131	मऊ	रेडी भुसौली	रेडी भुसौली मुस्तकिल	127	मऊ	रेडी भुसौली	रेडी भुसौली मुस्तकिल
			रेडी भुसौली अहतमाली				रेडी भुसौली अहतमाली
			बसरेही मुस्तकिल				बसरेही मुस्तकिल
			बसरेही अहतमाली				बसरेही अहतमाली
132	मऊ	ताड़ी	ताड़ी मुस्तकिल	128	मऊ	ताड़ी	ताड़ी मुस्तकिल
			ताड़ी अहतमाली				ताड़ी अहतमाली
			चकअलैहा				चकअलैहा
133	मऊ	कोपा	कोपा	129	मऊ	कोपा	कोपा
134	मऊ	बरगढ़	बरगढ़	130	मऊ	बरगढ़	बरगढ़
			उसरी माफी				उसरी माफी
135	मऊ	गोइया खुर्द	गोइया खुर्द	131	मऊ	गोइया खुर्द	गोइया खुर्द
			गोइया कला				गोइया कला
136	मऊ	मुरका	मुरका	132	मऊ	मुरका	मुरका
137	मऊ	बोझ	बोझ	133	मऊ	बोझ	बोझ
			महरवा				महरवा
			भटगवा				भटगवा
			चकबोध				चकबोध
			अरवारी नेडिया				अरवारी नेडिया
138	मऊ	तुरगंवा	तुरगंवा	134	मऊ	तुरगंवा	तुरगंवा
			मड़हा				मड़हा
139	मऊ	खोहर	खोहर	135	मऊ	खोहर	खोहर
140	मऊ	कलचिहा	कलचिहा	136	मऊ	कलचिहा	कलचिहा
141	मऊ	हरदीकला	हरदी कला	137	मऊ	हरदीकला	हरदी कला
			हरदी खुर्द				हरदी खुर्द
			लोढ़ौँता कला				लोढ़ौँता कला
			लोढ़ौँता खुर्द				लोढ़ौँता खुर्द

1	2	3	4	1	2	3	4
142	मऊ	सेमरा	सेमरा	138	मऊ	सेमरा	सेमरा
			असरी मजरा				असरी मजरा
143	मऊ	ओबरी	ओबरी	139	मऊ	ओबरी	ओबरी
			कन्धारा				कन्धारा
			करौंदी खुर्द				करौंदी खुर्द
			ललई				ललई
			चन्दहा				चन्दहा
144	मऊ	गाहुर	गाहुर	140	मऊ	गाहुर	गाहुर
145	मऊ	रैपुरा	रैपुरा	141	मऊ	रैपुरा	रैपुरा
			दूबी				दूबी
146	मऊ	लपाव	लपाव	142	मऊ	लपाव	लपाव
147	मऊ	कटैया डाडी	कटैया डाडी	143	मऊ	कटैया डाडी	कटैया डाडी
148	मऊ	डोडिया माफी	डोडिया माफी	144	मऊ	डोडिया माफी	डोडिया माफी
			छेरहरा माफी				छेरहरा माफी
			छेतैनी माफी				छेतैनी माफी
			खरग डाह				खरग डाह
149	मऊ	कोटवा माफी	कोटवा माफी	145	मऊ	कोटवा माफी	कोटवा माफी
			चचोखर				चचोखर
			कनियाड				कनियाड
150	मऊ	कोनिया	कोनिया	146	मऊ	कोनिया	कोनिया
			जमिरा				जमिरा
151	मऊ	कोलमजरा	कोलमजरा	147	मऊ	कोलमजरा	कोलमजरा
152	मऊ	मनका छितैनी	मनका छितैनी	148	मऊ	मनका छितैनी	मनका छितैनी

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/82/2015-4/134(चित्रकूट)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
राज कुमार,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 712 राजपत्र (हि०)-2021-(1420) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 63 सा० पंचायतीराज-2021-(1421) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

712 RPH Eta data 8d Pan raj folder-2020